



कॉर्पोरेट संप्रेषण एवं निवेशक संबंध

प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे-5

फोन -020 :25614495, 25614366, 25514501 to 12 विस्तार- 495

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने आवास ऋण और कार ऋण ग्राहकों के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

पुणे, 08 अक्टूबर, 2021 : बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है। बैंक ने अपने आवास ऋण और कार ऋण ग्राहकों के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म आरंभ किया है, जो कि संभावित रिटेल ऋण के इच्छुक व्यक्तियों को उनके पसंद के स्थान और समय की सुविधा के अनुसार कागजरहित प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से ऋणों की प्राप्ति उपलब्ध कराता है।

साथ ही, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म अपेक्षित जानकारी की प्रस्तुति डिजिटल रूप से पूर्ण होते ही, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवास ऋण और कार ऋण हेतु तत्काल 'सैद्धांतिक अनुमोदन' (इन-प्रिंसिपल एप्रूवल) उपलब्ध कराता है। यह प्लेटफॉर्म आवेदक के केवाईसी, सिबिल और वित्तीय विवरण वैलीडेट करने तथा बिना किसी बाधा के 'सैद्धांतिक अनुमोदन' उपलब्ध कराने में सक्षम है। संभावित आवेदक बैंक की कार्यालयीन वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म आरंभ किया। श्री हेमन्त टम्टा, श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशकगण और साथ ही, सभी महाप्रबंधकगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बैंक के सभी 40 अंचल प्रबंधकों ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते हुए कहा - "इसका प्रमुख उद्देश्य डिजिटाइजेशन के माध्यम से अपस्केल लेंडिंग तथा विशिष्ट ग्राहक अनुभव उपलब्ध कराना है। बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनसे आंतरिक रूप से बैंक की डिजिटाइजेशन प्रक्रिया मजबूत हुई है और सरलता से बाधारहित सेवाएं उपलब्ध होंगी।"

हाल ही में बैंक ने पर्वी और त्योहारों के अवसर पर ग्राहकों के लाभ के लिए आवास ऋण और कार ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क में छूट दी है और यह ऋण आकर्षक ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए गए हैं।